



हरति घोषणा-पत्र, 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में पीपुल फॉर [अरावली](#) समूह ने राज्य में बढ़ते पर्यावरणीय संकट के जवाब में 'हरियाणा हरति घोषणा-पत्र 2024 (हरियाणा ग्रीन मेनफिस्टो)' के विकास की पहल की।

मुख्य बंदि

- **ग्रीन मेनफिस्टो:** यह दस्तावेज़ एक अद्वितीय भागीदारी अभ्यास के बाद तैयार किया गया था, जिसमें विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा के 17 ज़िलों के ग्रामीण और शहरी हतिधारकों से इनपुट एकत्र किया गया था।
 - पारिस्थितिकी, कृषि, शहरी नियोजन और टिकाऊ वास्तुकला के विशेषज्ञों ने हरियाणा के लिये हरति दृष्टिकोण को आकार देने में योगदान दिया।
- **हरति घोषणा-पत्र में प्रमुख मांगें:**
 - वननाशकारी गतिविधियों और वाणज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगाने के लिये [अरावली तथा शिवालिक](#) को कानूनी रूप से "**critical ecological zones अर्थात् महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र**" के रूप में नामित किया जाना चाहिये।
 - शेष पहाड़ियों को संरक्षित करने के लिये **वैकल्पिक निर्माण सामग्री** के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये।
 - **महेंद्रगढ़ ज़िले** को "पहाड़ी डार्क ज़ोन" घोषित किया जाए तथा भूजल स्तर (1,500-2,000 फीट) के अत्यधिक नमिन स्तर के कारण सभी **खनन और पत्थर-तोड़ने के कार्य** बंद किये जाने चाहिये।
 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में **खनन को वैध बनाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय** में राज्य की अपील वापस ली जाए।
 - **पाली के बंधवाड़ी और पुराने सोहना-अलवर रोड पर ITI कॉलोनी के पास** लैंडफिल हटाए जाए।
 - **नुह ज़िले** के भविषी, खोरी खुरद और अन्य गाँवों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के अवैध डंपिंग तथा जलाने पर रोक लगाई जाए।
 - जनि ग्रामीणों की भूमि गतिविधियों से प्रभावित हुई है, उन्हें मुआवज़ा और **गुणवत्तापूर्ण कृषि भूमि** उपलब्ध कराएं।
- **वन संरक्षण की मांगें:**
 - **पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900** के अंतर्गत गैर-अधिसूचित वनों को "**Deemed Forests अर्थात् मान्य वन**" के रूप में शामिल करके सभी वनों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना।
 - **दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994** के समान हरियाणा के लिये भी वृक्ष अधिनियम बनाया जाए।
 - सभी **खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों (Open Natural Ecosystems- ONE)** को, जैसे कि फतेहाबाद ज़िले में **काले हरिणों** के प्राकृतिक आवास को, संरक्षण या सामुदायिक रज़िर्व घोषित किया जाए।
 - हरियाणा के वन (ONE) को **भारत के बंजर भूमि एटलस** से हटाया जाए, जिसमें इन पारिस्थितिकी प्रणालियों को कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिये 'अनुत्पादक' भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - **चार वर्षों के भीतर हरियाणा के वन एवं वृक्ष आवरण को 10%** तक बढ़ाने के लिये कार्य योजना लागू करना।
 - **लेसोडा, खेजड़ी, इंदरोक और जाल** जैसी **हरियाणा की पारंपरिक वृक्ष प्रजातियों** को पुनः लागू करना तथा जैवविविधता से भरपूर स्थानों के निर्माण हेतु पारिस्थितिकीय रूप से सही तरीके से देशी वृक्षारोपण (ऊँचे वृक्ष, भूमिगत वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ, घास) को बढ़ावा देना।
- **खाद्य सुरक्षा की मांगें:**
 - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की प्रमुख रणनीति के रूप में **फसल विविधीकरण** को बढ़ावा देना।
 - केंद्र द्वारा घोषित **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर किसानों द्वारा उगाई गई **प्रत्येक फसल की गारंटीकृत खरीद** सुनिश्चित करना।
 - मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने वाली **नेचुरल फार्मिंग (Natural Farming)** पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
 - **पछिले 15 वर्षों** से कुछ गाँवों में किसानों को शक्ति करने वाले **'कीट पाठशालाओं' (कीट विद्यालयों)** को सभी ज़िलों में वस्तितारित करना। ये विद्यालय शाकाहारी और मांसाहारी कीटों के बीच संतुलन सिखाते हैं, जिससे कीटनाशकों के छड़िकाव की ज़रूरत कम हो जाती है।

अरावली पर्वत शृंखला

- अरावली पृथ्वी पर **सबसे पुराना** मोड़दार पर्वत है।
- यह **गुजरात से दिल्ली** (राजस्थान और हरियाणा से होकर) **तक 800 किलोमीटर** से अधिक वस्तित है।

- अरावली परवतमाला की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर स्थिति गुरु शखिर है ।

जलवायु पर प्रभाव:

- अरावली परवतमाला उत्तर-पश्चिमि भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव डालती है ।
- मानसून के दौरान, परवत शृंखला मानसून के बादलों को शमिला और नैनीताल की ओर पूरव की ओर ले जाती है, जिससे उप-हिमालयी नदियों को पोषण मलिता है तथा उत्तर भारतीय मैदानों को पोषण मलिता है ।
- सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ नदी घाटियों (पैरा-सधु और गंगा) को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी पवनों के आक्रमण से बचाती है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/green-manifesto-2024>

